

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन, रमज़ान के दौरान वर्चुअल तौर पर अपने मोज़ैक का जशन मना रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (12 अप्रैल, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, रमज़ान (Ramadan) के दौरान वर्चुअल (आभासी) तौर पर अपनी विविधता का जशन मनाएगी। रमज़ान के पूरे माह में 13 अप्रैल से 12 मई तक ऑनलाइन गतिविधियां होंगी और सोमवार, 19 अप्रैल को शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे तक इफ्तार के जशन का खास प्रोग्राम होगा।

रमज़ान, इस्लाम को मानने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रोज़े रखने, आत्मचिंतन और इबादत करने का पवित्र महीना है। चूंकि ब्रैम्पटन, प्रांत के स्टे-एट-होम (Stay-at-Home) ऑर्डर के अधीन है, इसलिए सिटी निवासियों से अनुरोध करती है कि वे रमज़ान के दौरान सुरक्षित रूप से जशन मनाएं और नियोजित ऑनलाइन गतिविधियों में हिस्सा लें। इन गतिविधियों में शामिल हैं:

- रमज़ान के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए, खराब न होने वाले खाद्य पदार्थों और खिलौनों का दान एकत्र करने के लिए, ब्रैम्पटन फूडबैंक के साथ साझेदारी करके कम्युनिटी को वस्तुएं बांटना
- कम्युनिटी प्रस्तुतियों के द्वारा रमज़ान के सांस्कृतिक पक्षों को चिन्हित करना
- ब्रैम्पटन के लोकल कारोबारियों को लोगों की नज़र में लाना और इस बात पर ध्यान देना कि रमज़ान के दौरान उनकी मदद कैसे की जाए
- ब्रैम्पटन की मस्जिद का वर्चुअल टूर और लोकल इमाम की ओर से संदेश
- रमज़ान संबंधी व्यंजनों की विधियां, स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी सुझाव

रमज़ान के दौरान, मुस्लिम कम्युनिटी सुबह और शाम के बीच में कुछ नहीं खाती। इफ्तार डिनर, शाम को किया जाने वाला भोजन है, जब मुस्लिम अपना रोज़ा खोलते हैं।

इस वर्ष की इफ्तार में शामिल है, मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), काउंसिल के मेम्बर्स के द्वारा स्वागत संदेश और कम्युनिटी लीडर्स तथा लोकल इमामों की ओर से संदेश। जशन की पेशकशों में शामिल हैं, कुरान की आयतें पढ़ना, प्रेरणादायक विचार पेश करना, नाशीद म्यूजिक, रमज़ान के उत्साह, दुआ, अज़ान (अरदास के लिए पुकार) के बारे में मुख्य संदेश और रात को 8 बजे इफ्तार।

लोग, 13 अप्रैल से 12 मई तक, ऑनलाइन रमज़ान का अनुभव ले सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए: [brampton.ca/experienceramadan](http://brampton.ca/experienceramadan) पर जाएं।

2020 में, काउंसिल ने सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को नोएज बाइ-लॉ (Noise By-law) से छूट देने के लिए वोट दी थी, जिसमें धार्मिक स्थलों को आवाज़, घंटियां बजाने और घंटानाद करने की अनुमति दी गई थी। इस वर्ष फिर से रमज़ान के दौरान, मस्जिदों में रात 8 बजे या

शाम को तेज़ आवाज़ में अज़ान पेश की जा सकेगी। खास प्रबंधों का निवेदन करने वाले कम्युनिटी ग्रुप या धार्मिक संगठन, 311 पर संपर्क कर सकते हैं। सिटी का स्टाफ और काउंसिल, मंजूरी के लिए निवेदनों की समीक्षा करेंगे।

## हवाले

“हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ब्रैम्पटन में शानदार विविध कम्युनिटी है, जहां हमें रमज़ान के पवित्र माह जैसे खास कार्यक्रमों के द्वारा संस्कृतियों के हमारे मोज़ैक को पहचानने और इसका जशन मनाने का अवसर मिलता है। इस्लाम, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और हमारी पूरी सिटी में विविध कम्युनिटीज के 60,000 से अधिक श्रद्धालु हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“मैं निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे इस वर्ष, ऑनलाइन नियोजित कई गतिविधियों में से कुछेक में हिस्सा लेकर वर्चुअल तौर पर रमज़ान का अनुभव लें। प्रांत के स्टे-एट-होम ऑर्डर के दौरान, लोग अपने घर में बैठे ही सुरक्षित रूप से रमज़ान का जशन मना सकते हैं।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

## मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)